



अगस्त 24, 2020

प्रिय मित्रों और पड़ोसियों,

28 जुलाई को, ओंटारियो सरकार ने एक त्वरित निर्माण प्रक्रिया के प्रयोग से, Ajax Pickering Hospital के अहाते में, एक नए, आधुनिक दीर्घ-कालिक देखभाल (LTC) होम का निर्माण Lakeridge Health और Infrastructure Ontario के साथ एक सहयोगी साझेदारी में करने की घोषणा की है। हमें आपको अपनी प्रगति के बारे में अवगत कराने में खुशी हो रही है।

गुरुवार, 27 अगस्त को, हम त्वरित निर्माण प्रक्रिया की तैयारी में अगले कदम उठा रहे हैं। निर्माण स्थल की मिट्टी की जाँच होनी शुरू होगी, और इस काम में 10 दिन लगने की संभावना है। हमारा और हमारे सरकारी साझेदारों का लक्ष्य इस प्रोजेक्ट को 2021 में पूरा करना है।

निर्माण स्थल के आंकलन का काम सामान्य व्यावसायिक समय के दौरान किया जाएगा। हमें ऐसी उम्मीद है कि तात्कालिक निवासियों को कोई बड़ी असुविधा नहीं होगी; हालांकि, मिट्टी की जाँच होने के कारण थोड़ी धूल और शोर उत्पन्न हो सकता है। कार्य के दौरान कार्यस्थल पर लागू होने वाले सभी नियमों का पालन किया जाएगा, और पूरा हो जाने पर ज़मीन में हुए सभी गड्ढों के लिए सुरक्षा उपाय किए जाएंगे। हम अपने समुदाय, खासतौर पर करीबी स्थानीय निवासियों को अपने काम में हुई प्रगति के बारे में अवगत करा रहे हैं।

320 बिस्तरों वाले नए LTC होम का निर्माण उन्नत डिजाइन/निर्माण प्रक्रिया द्वारा किया जाएगा। संक्रमण रोकथाम और नियंत्रण के सबसे बेहतर उपायों और रहिवाशियों के लिए आवास के क्षेत्रों के साथ होम का आधुनिक डिजाइन, तरह-तरह की ज़रूरतों और क्षमताओं वाले वरिष्ठ नागरिकों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को प्रोत्साहन देगा। इस नई और आधुनिक तकनीक से निर्मित सुविधा के साथ, Durham Region को एक अति आवश्यक अतिरिक्त दीर्घ कालिक देखभाल क्षमता मिलेगी और समुदाय को कम समय में उच्च गुणवत्ता वाली LTC सेवाओं तक पहुँच प्राप्त होगी।

यदि आपके कोई प्रश्न हैं या आप अधिक जानकारी चाहते हैं, तो कृपया 905-576-8711 ext. 34167 पर कॉल करें या AjaxLTC@lh.ca पर ईमेल करें।

हम आपको इस क्षमता निर्माण प्रोजेक्ट के बारे में अवगत कराना जारी रखेंगे, जो हमें हमारे लक्ष्य, 'एक पद्धति' को पूरा करने में हमारी मदद कर रहा है। आपके उत्तम स्वास्थ्य की कामना करते हुए,

भवदीय,

मार्क मर्फी (Mark Murphy)

वरिष्ठ निदेशक, पूंजी योजना और विकास